



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 27.12.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना पसगवां पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त अमित सिंह को गिरफ्तार किया गया



श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे गिरफ्तारी वांछित /वारंटी अभियुक्त अभियान के अन्तर्गत थाना पसगवां पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.12.20 को वांछित अभियुक्त अमित सिंह पुत्र राम प्रकाश सिंह उर्फ रामू सिंह नि0 ग्राम डुडौलिया थाना पसगवां खीरी संबंधित मु0अ0स0 534/20 धारा 363/366 भादवि को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही कर नियमानुसार मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

## थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अवैध शराब व उपकरण सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



### प्रेस नोट

#### थाना धौरहरा में दो नफर अभियुक्त अवैध शराब बनाने, बेचने व परिवहन करते समय अवैध शराब व मो०सा० सहित गिरफ्तार

दिनांक 25.12..2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश व श्रीमान क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक धौरहरा के द्वारा विशेष अभियान चलाकर थाना स्थानीय की पुलिस टीम व आबकारी टीम द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब के परिवहन, निष्कर्षण के सम्बन्ध में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गण टीकाराम पुत्र गिरधारी नि० कैलाशनगर थाना धौरहरा खीरी व रामभरोसे पुत्र फकीरा नि० माथुरपुरवा थाना धौरहरा खीरी को रमियाबेहड से सुजानपुर रोड से समय करीब 19.00 बजे मय 50 लीटर अवैध शराब व एक पीपा में 30 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 625/2020 धारा 60/72 आबकारी अधि० व मु०अ०सं० धारा 60(2) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया अभियुक्त गण उपरोक्त को माननीय न्यायालय पेश किया गया। अभियान के दौरान लगभग 5000 ली० लहन नष्ट किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. टीकाराम पुत्र गिरधारी नि० कैलाशनगर थाना धौरहरा खीरी
2. रामभरोसे पुत्र फकीरा नि० माथुरपुरवा थाना धौरहरा खीरी

#### विवरण बरामदगी

80 ली० अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण

एक अदद मो०सा० व एक किता चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 207 एम०वी० एक्ट

## थाना मैलानी पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैलानी पुलिस द्वारा अभियुक्त मोहम्मद आदिल पुत्र शफी मोहम्मद नि० उदयपुर थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किये गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 435/20 व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

## अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 200 लीटर अवैध कच्ची शराब, 04 अवैध भट्टी बरामद कर 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना फरधान	100 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना हैदराबाद	30 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना सम्पूर्णानगर	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना कोतवाली सदर	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना मोहम्मदी	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना ईसानगर	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	200 लीटर	09 अभियुक्त गिरफ्तार